



# INDIAN SCHOOL AL WADI AL KABIR

## SYLLABUS FOR THE MONTH OF MAY, 2020

### CLASS IV

SUBJECTS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
<b>MATHEMATICS</b>	CHAPTER-6: Geometry	CHAPTER-6: Geometry	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Revision of the concepts of Addition and Subtraction</li> </ul> <p><b>Chapter-3- Multiplication Recalling Tables</b></p>	<p><b>Chapter-3- Multiplication</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recap</li> <li>• Reinforcing tables</li> <li>• Properties of Multiplication</li> </ul> <p><b>Multiplying by 10, 100, 1000</b></p>
<b>EVS</b>	Journey of Food	Relationships in a family Extended Family [Not for Testing] <b>Journey of Food</b>	Sources of Water	Sources of Water
<b>ENGLISH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CB - Unit 1 – The Sounds in The Evening</li> <li>* Language Structure - Nouns ( Recap)</li> <li>* Writing Skills- Paragraph Writing</li> <li>* Activity - Speaking Skills</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CB- Unit 3- The Sounds in The Evening</li> <li>* Language Structure -Abstract Nouns</li> <li>* Writing Skills- Paragraph Writing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CB- Unit 3- The Fifth Golden Ticket</li> <li>* SB- Unit 2- Rip Van Winkle</li> <li>* Writing Skills- Diary Entry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CB- Unit 3- The Fifth Golden Ticket</li> <li>* Language Structure - Verbs and Tenses</li> <li>* Writing Skills- Diary Entry</li> </ul>
<b>HINDI</b>	पाठ : बलवान कौन - चित्र , सुलेख शब्दार्थ ,समानार्थी ,विलोम , अर्थ ग्रहण- कार्य पत्रिका-2	पाठ :बलवान कौनcont... वाक्य रचना ,प्रश्न उत्तर , Prose- कार्य पत्रिका , लिंग और वचन बदलिए , Language- कार्य पत्रिका	पाठ:बलवान कौन - अभ्यास कार्य ,द्रुतपाठ- चोर की दाड़ी में तिनका , व्याकरण-संज्ञा व संज्ञा के भेद , संज्ञा (कार्य पत्रिका) चित्र वर्णन - समुद्रतट की सैर	पाठ:बलवान कौन - अभ्यास कार्य ,द्रुतपाठ- चोर की दाड़ी में तिनका , व्याकरण-संज्ञा व संज्ञा के भेद , संज्ञा (कार्य पत्रिका) चित्र वर्णन - समुद्रतट की सैर
<b>COMPUTER SCIENCE</b>	Unit 2: Computer - Inside the System Unit -	Unit 2: Memory Unit (RAM and RAM) Logo Exercises.	Unit 2: Disk Drives and SMPS. Logo – Exercises	Unit 2: Adapter Cards, Ports. Unit 4: Logo – Repeat command in Logo
<b>PE</b>	Human Body * Marching Commands	Callisthenic (drill) Exercises	Events Major Game Hockey	Callisthenic (drill) Exercises
<b>ART</b>	Drawing and colouring an Owl.	Drawing and colouring an Owl	Drawing and colouring a House	Drawing and colouring a House.
<b>MUSIC</b>	Vocal warm up Exercises With Introduction to Pitch	Vocal warm up Exercises with Introduction to Pitch	Vocal warm up Exercises (lip trills and humming)	Introduction to Rhythm and Singing all 7 Notes with Rhythm

<p style="text-align: center;"><b>YOGA</b></p>	<p>Introduction of some Basic Asanas: Back Bending Asana Ardha Chandrasana Half Moon Pose</p>	<p>Two Forward Bending Asanas: JanuSirshasan Seated head to knee posture Shashankasan Child pose</p>	<p>Practice of Suryanamaskar with Correct Posture</p>	<p>Practice of all 12 Steps of Suryanamaskar with correct breathing Technique.</p>
<p style="text-align: center;"><b>AEROBICS</b></p>	<p>Continuation ... Conditioning Exercise</p>	<p>Lower Body Conditioning Exercises</p>	<p>Continuation... Lower Body Conditioning Exercises</p>	<p>Full Body Strengthening Workout</p>